

00676

**POST GRADUATE CERTIFICATE IN  
MALAYALAM HINDI TRANSLATION  
PROGRAMME  
(PGCMHT)**

सत्रांत परीक्षा

जून, 2012

एम.टी.टी.-004 : मलयालम-हिन्दी अनुवाद :  
तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

**नोट :** सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पाँच का संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

5x5=25

- (a) मलयालम और हिन्दी के स्वर वर्णों तथा उनके उच्चारणों की समानता और भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए।
- (b) हिन्दी और मलयालम में रामकथा पर आधिरित ग्रंथों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
- (c) हिन्दी और मलयालम की लिंग-व्यवस्था की तुलना कीजिए।
- (d) कथकली की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए।
- (e) मलयालम से हिन्दी में अनुदित चार नाटकों और उनके मूल-लेखक व अनुवादकों के नाम बताइए।
- (f) हिन्दी और मलयालम की परिभाषिक शब्दावली में अंतर के पाँच उदाहरण दीजिए।
- (g) जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' के मलयालम अनुवादकों का उल्लेख कीजिए।

2. निम्नलिखित में से **किन्हीं दस** शब्दों के हिन्दी पर्याय दीजिए : 5

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| (a) മണ്ണതൾ      | (b) ഉപ്പുകൂട്ട്     |
| (c) തോറ്റത്ത്   | (d) തേനീച്ച         |
| (e) കുടിഴ്ചിക്ക | (f) തരം കുറഞ്ഞ      |
| (g) വില പിടിച്ച | (h) അയഞ്ഞ           |
| (i) സമാധാനം     | (j) ചെലവാക്കുക      |
| (k) പറക്കുക     | (l) ചുറുചുറുക്കുള്ള |
| (m) വായനശാല     | (n) മെഴുകുതിൽ       |

### അത്വാ

निम्नलिखित में से **किन्हीं दस** शब्दों के मलयालम पर्याय दीजिए : 5

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (a) रीढ़ की हड्डी | (b) दुम्जिला मकान |
| (c) चमेली         | (d) जासुन         |
| (e) पगड़ी         | (f) संशोधन        |
| (g) चचेरा भाई     | (h) निविदा        |
| (i) खाँसी         | (j) सമझौता        |
| (k) इनकार करना    | (l) हाथों हाथ     |
| (m) खुरदरा        | (n) चौराहा        |

3. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : 5
- आगल्ये 15 -म् प्रयागमण्डि येत्तीन्दीयील चेष्टेकार्त्तियिल्ल त्रिवर्णल्लू पताक उत्तरत्तुन्नु.
  - पेटकुन्न अंतर्रो करकु तुरन्नु.
  - मोहर्न न्न्लूपोल श्रमीच्छु, एगाल वीजयीच्छील्ल.
  - ताङ्कर वगतिन्नु शेषमे परिपाठि तुरन्तुकयुत्तिहृष्टु.
  - केरलत्तील्ल नीन्न पृष्ठकर भीवसवु० तुर्बायँक्के अयक्केप्पुट्टुन्नु.
  - लाल इन्नले नीन्नले उरन्तुकयायीरुन्नु.
  - कुट्टीक्के भय० कारण० संसारिक्काल सायीच्छील्ल.
  - ताङ्कर ज्यारेकर प्रसातिल्लै चान्तरु० नाटकम् वायीच्छीकुलेह० ?
4. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यों का मलयालम में अनुवाद कीजिए : 5
- ऐसे छोटे मामले पर आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं?
  - ठीक पाँच बजे फुटबाल प्रतियोगिता शुरू हुई।
  - लीला अपनी अंगूठी थोड़े ही बेचेगी।
  - फर्श पर जहाँ तहाँ खून के छीटि पड़े थे,
  - भगत सिंह का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है।
  - ऐसे के मामले में दोनों भाइयों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर है।
  - मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है।
  - इसके अलावा आपको एक उपहार भी मिलेगा।

5. निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं पाँच का हिन्दी में अनुवाद करके उनका हिन्दी वाक्यों में प्रयोग कीजिए :  $5 \times 2 = 10$
- (a) કછુણી પડુંટાવુક.
  - (b) કળ્ણીણી પોંકિયિટુક.
  - (c) અનુકાળફેલાઉ કેઢુકુ.
  - (d) કળ્ણીલે કરડ.
  - (e) પળાં કાયુંકલુણ મરમિલુ.
  - (f) વેળામહિણી ચક્ક વેરિલું કાયુંકલું.
  - (g) તાણી પીડીઅં મુયલીની મુણુ કેઠાપી.
  - (h) વિતાંત્ર કેઠાયું.
6. निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं पाँच का मलयालम में अनुवाद करके उनका मलयालम वाक्यों में प्रयोग कीजिए :  $5 \times 2 = 10$
- (a) पहल करना
  - (b) સિર પર ચઢના
  - (c) દખલ દેના
  - (d) દાલ ગલના
  - (e) અધજલ ગગરી છલકત જાએ
  - (f) જો ગરજતે હું વે બરસતે નહીં
  - (g) એક પંથ દો કાજ
  - (h) મજબૂરી મें ગધે કો ભી બાપ બનાના પડતા હै।

7. निम्नलिखित में से किसी दो अवतरणों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :  
 $2 \times 15 = 30$

- (a) स्पृष्टि (ग्रन्थ) समरकालं मुत्तरिष्ठेऽ  
गायिजीयुदेव जीवितं काव्यं विषयमायि  
तीर्णीक्षुबलेष्टकिल्पुः गारवं पृथिव्यमाय  
गोवल्पुकर्मिक्षः विषयमायीक्षुबलेष्टग्न्य  
तेऽनुग्नील्प. काव्यतीर्णं संतुरं  
शीतिपरमाय एवं लग्नयुक्तिगात्र  
गायिगीतन्त्रेष्टकेऽस्त्रं संतेऽत  
शीतिक्षुलाण् एग्नात्रं गोवलीर्णे लग्न  
विवरणात्मकव्यं विचारात्मकव्यमाण्  
अत्तुकेकाण्डं गायिजीयक्षुरित्यु  
चुक्षुत्तुग्नं गोवलं एवं संतुती  
शीतमाव्युक्तयील्प. प्रत्येकीत्यु  
व्युत्तरयेत वेवरुद्युष्मिलं नीरण्त  
गायिजीयुदेव जीवितं पलं काञ्छ-  
प्लाङ्कुकर्मिक्षः विषयीवेक्षुपेषार्ण  
विचारपृथिव्यमाय साभ्यतकर्मिक्षः अत्त  
ल्लं नस्तिक्षुग्न्य.
- (b) तिरुवितांकुरिलै चीलं कायत्रि  
प्रत्येषेत्तर्मिक्षः विशेषीत्युः तेऽनुकर्मि  
केकाण्डं क्षुलं वरण्त केात्युः श्रामण्तर्मि  
नीरण्त अप्यलप्लुषं परिसरण्तर्मिक्षः,

വെനിസ്സിനെക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ഇരുളും കരയും പാടിക്കുടിയ കരിക്കൽ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കു പകരം പ്രക്ഷൃതിയുടെ പച്ചക്കുട പിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന തെങ്ങുകളാണ് നമ്മുടെ തോട്ടുകളിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു നില്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ 'തോട്ടുകൾ നിരഞ്ഞ നാട്' അവിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു. വെനിസ്സിനു പ്രതാപത്തോടു കൂടിയ പഴയാരു നീംഭ ചരിത്രമുണ്ട്. ആ പേര് അനുഭിന്നം ആയിരക്കണക്കിൽ സന്ദർശകരാരെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

- (c) എത്രു സാംസ്കാരിക ചർച്ചയും സംഖാദപരവും വിവാദപരവുമാണ്. ജനവർഗ്ഗ വൈരുദ്യമാണ് അതിനു കാരണം. എക്കിലും പഠന സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി ചില പൊതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് താനു. 'സാംസ്കാരം' എന്ന പദം സംസ്കൃതമാണ്. ശേഖരിക്കുക, പാകം ചെയ്യുക, കനുകകാലികളെ വളർത്തുക, മിനുസപ്പെടുത്തുക, ശുചിയാക്കുക, മനഃശ്വംബി വരുത്തുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ

அது பாடத்தினுள்ளத் ‘கல்டுக்’ என்ற ஹாங்கிஷ் பாடத்தின் கூறு என்ற ஸமஸ்கூர யாதுவுமாயி வெளியமுள்ளத். அதுங்கல ஹாங்கிலை ‘கல்டுக்’ என்ற பாடத் தீர்மை பூர்ணமாயும் ஸாயுக்கிக்கூன்று. கலப்பு நாவ் என்றத்தைமுடிது ‘கல்டுக்’ என்ற பாடத்தின் நிர்ணயத்தை கல்டுக், கல்டுக் தூக்ஞதிய பாடங்களுடைய நிதிப்படித்து.

8. நிம்நிலி஖ித அவ்தரணों மें से किसी एक का मलयालम में  
अनुवाद कीजिए :

10

- (a) सिडनी न केवल आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन शहर है, बल्कि वह एक जीवंत शहर भी है, जो दुनिया के सबसे सुंदर बंदरगाह के ईर्द-गिर्द बसा है। यह स्वच्छ तथा ताजा हवा और चटख रंगों वाला एक ऐसा शहर है, जहाँ प्रकृति का भरपूर तथा सुंदरतम् स्वरूप देखने को मिलता है। सिडनी अपने हारबर ब्रिज तथा ओपेरा हाउस के कारण तो दुनिया भर में मशहूर है ही, साथ ही अपने बोंडी तथा मैनली जैसे सुंदर समुद्रतटों और तटीय राष्ट्रीय उद्यानों के कारण भी वह पर्यटकों का मन मोह रहा है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे नई शताब्दी के पहले ओलिंपिक खेलों के आयोजन के लिए चुना गया था।

(b) 'हिंदी' भारत की प्रधान भाषा है। भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग 43 है। यदि संपर्क और द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों का प्रतिशत एकसाथ जोड़ दिया जाए तो इसका प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ सकता है। भारत में सुदूर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में बसे भारतीयों से संपर्क का माध्यम हिंदी ही है। यह शक्ति अंग्रेजी भाषा में नहीं है, जो देश की जनसंख्या में दो प्रतिशत से भी कम लोगों की मातृभाषा है। महात्मा गांधी ने इस तथ्य को पहचानते हुए कहा कि 'कांग्रेस अधिवेशन की कार्यवाही केवल हिंदी में होगी, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र तक यदि हमें अपना संदेश पहुँचाना है तो वह केवल हिंदी के माध्यम से ही संभव हो सकता है।

---